


माता-पिता/का नूनी अभिभावकों के लिए अकसर पुछे जाने वाले सवाल: स्कूलों में कोविड-19 टेस्टिंग



LifeLabs को कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी सबसे नौजवान आबादी को सुरक्षित और स्वस्थ रखने में मदद करने का गौरव हासिल है। बगैर लक्षणों वाले छात्रों, उनके परिवार के सदस्यों, शिक्षकों व स्टाफ की स्वैच्छिक जांच के लिए अगले कुछ दिनों के भीतर, कोविड-19 टेस्टिंग के लिए एक हब कलेक्शन साइट उपलब्ध होगी।

स्कूलों में बगैर लक्षण वालों की जांच सुरक्षा की एक अहम परत के रूप में काम करती है, जो कोविड-19 की पहचान कर उसे फैलने से रोकती है। अधिक टेस्टिंग से मामलों की जल्दी पहचान भी हो जाती है जिससे इस वायरस से जुड़े तनाव और चिंता में कमी आ सकती है और इस महामारी के प्रकोप को नियंत्रित करने से स्कूलों को सभी के लिए पढ़ने और काम करने के लिए सुरक्षित रखने में मदद मिलती है।

क्या आपके यहाँ बिना अपॉइंटमेंट (वॉक-इन) के आ सकते हैं?

हां, हम वॉक-इन को स्वीकार करेंगे।

क्या मुझे अपने बच्चे को रजिस्टर कराना होगा?

हमारा सुझाव है कि सभी माता-पिता या कानूनी अभिभावक अपने बच्चे/बच्चों को पहले से ऑनलाइन रजिस्टर कर लें। यदि आप ऑन-लाइन प्री-रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं कर पाते हैं, तो कृपया नोट करें कि हम वॉक-इन को भी स्वीकार करते हैं।

अपने स्कूल से रजिस्ट्रेशन कोड प्राप्त करने पर आप कृपया निम्नलिखित चरणों को पूरा करें।

1. अपने डेस्कटॉप या मोबाइल डिवाइस पर my.thrive.health पर जाएं।
2. अपने ईमेल ऐड्रेस का इस्तेमाल करके एक अकाउंट तैयार करें। पासवर्ड बनाएं।
3. अपने ईमेल ऐड्रेस को सत्यापित करें।
4. **Registering with a partner** पर क्लिक या टैप करें।
5. अपना रजिस्ट्रेशन कोड एंटर करें।
 - अपने स्कूल के यूनीक रजिस्ट्रेशन कोड के लिए अपने स्कूल से मिले पत्र को देखें।

6. गोपनीयता विवरण को पढ़ें और उसके प्रति सहमति जताएं। यदि आप 18 वर्ष के कम उम्र के किसी बच्चे के लिए रजिस्टर कर रहे हैं, तो उचित बॉक्स को चेक करें और नाम का विवरण दर्ज करें।
7. चरण 5 में आपने जो रजिस्ट्रेशन कोड डाला है, उसके लिए जोड़े जाने वाले प्रोफाइल का चयन करें। यदि आप अपने बच्चे के लिए रजिस्टर कर रहे हैं, तो इस रजिस्ट्रेशन कोड के साथ लिंक करने के लिए अपने बच्चे की प्रोफाइल सेट अप करने हेतु **'New Child'** पर क्लिक करें।
8. अपने बच्चे की जानकारी डालें, आपसे कुछ अन्य विवरण भी डालने को कहा जाएगा।
9. अब आप अपना COVID-19 टेस्ट करा सकेंगे। **"Book your COVID-19 Test"** पर क्लिक करें या टैप करें और टाइमस्लॉट का चयन करें। टाइमस्लॉट चुनने के बाद आप इसे बदल नहीं पाएंगे, इसलिए सुनिश्चित कि आप उस समय पर उपलब्ध रहेंगे।
10. यदि आपको किसी अन्य व्यक्ति को रजिस्टर कराना हो, तो अपने 'फैमिली' पेज पर जाएं (जो होम पेज के आगे है) और **'Register with Partner'** पर क्लिक करें।

क्या मेरे बच्चे के साथ मेरी जांच की जा सकती है?

हां, माता-पिता, परिवार के सदस्यों, शिक्षकों और स्टाफ़ की भी जांच की जा सकती है।

क्या आप मुझे अपने बच्चे के लिए सहमति देनी होगी?

18 वर्ष से कम की आयु के छात्रों की जांच के लिए उनके माता-पिता या कानूनी अभिभावकों की सहमति आवश्यक होगी।

क्या मेरे बच्चे को कुछ लाना भी होगा?

हां, उन्हें पहचान के प्रमाण के रूप में सरकार द्वारा जारी एक पहचानपत्र, जैसे कि मूल जन्म प्रमाणपत्र, स्वास्थ्य कार्ड या पासपोर्ट लाना होगा।

जांच कब/कहां की जाएगी?

नजदीकी स्कूल के प्रतिभागियों के लिए हब कलेक्शन साइट की व्यवस्था के लिए किसी निर्धारित स्कूल का चयन किया जाएगा, ताकि उन्हें आसान पहुंच की सुविधा मिल सके। सैंपल के समय के निर्धारण के लिए LifeLabs सीधा स्कूल या स्कूल बोर्ड के साथ काम करेगा।

जांच कैसे की जाएगी?

LifeLabs क्यू-टिप जैसे एक स्वैब का इस्तेमाल करता है जिसे नासिका के अगले हिस्से में डालकर पंद्रह सेकंड तक (प्रति नासिका) घुमाया जाता है। स्कूल द्वारा निर्धारित स्थान पर हमारे प्रशिक्षित स्टाफ़ जांच संपन्न करेंगे। कुछ छात्र जांच से घबरा सकते हैं, पर यह गौर करने वाली बात है कि यह जांच जरा भी पीड़ादायक नहीं है और इसलिए इससे आपके बच्चे को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस जांच में शुरु से अंत तक में दो मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए।

क्या मैं इस प्रक्रिया के दौरान अपने बच्चे के साथ रह सकता/सकती हूँ?

हमारी सलाह है कि यदि बच्चे(बच्चों) की आयु 18 वर्ष से कम है तो उनके माता-पिता या कानूनी अभिभावकों को जांच स्थल पर मौजूद रहना चाहिए।

क्या यह जांच अनिवार्य है?

नहीं, यह जांच स्वैच्छिक है।

क्या होगा यदि मेरा बच्चा टेस्टिंग के दिन जांच करवाने से मना कर देता है?

हम छात्रों के लिए इस प्रक्रिया को एक संक्षिप्त और सुगम अनुभव बनाने पर ध्यान दे रहे हैं। हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि यदि आपका बच्चा असहज होता है या टेस्ट नहीं करवा पाता है, तो हम आपके बच्चे की जांच नहीं करेंगे।

टेस्ट के नतीजे 24-48 घंटों में मिल जाएंगे।

टेस्ट के नतीजे 24-48 घंटों में मिल जाएंगे। नतीजों को covid19results.ehealthontario.ca पर अपलोड किया जाएगा। यह वेबसाइट चेक-इन के समय पर डाले गए विवरणों का इस्तेमाल करती है, जैसे कि स्वास्थ्य कार्ड संख्या या जन्म तिथि, ताकि व्यक्ति (यानी आपका बच्चा) की पहचान और सत्यापित किया जा सके। फिर यह कोविड-19 टेस्ट नतीजों के लिए रिपोर्टिंग की खोज करती है। रिपोर्ट आने के 90 दिनों तक नतीजों को प्रदर्शित किया जाता है। आप नतीजों को LifeLabs WorkClear Thrive ऐप्लिकेशन पर भी देख पाएंगे।

क्या होगा यदि जांच के नतीजे पॉजिटिव आते हैं?

पॉजिटिव नतीजों को पब्लिक हेल्थ यूनिट के आदेशानुसार प्रदान किया जाएगा। यदि आपका बच्चा कोविड-19 की जांच में पॉजिटिव आता है, तो आपको कुछ दिनों में पब्लिक हेल्थ यूनिट की ओर से एक कॉल आएगा।

क्या होगा यदि मुझे या मेरे बच्चे में COVID-19 के लक्षण हैं?

यह टेस्टिंग केवल बगैर लक्षणों वाले व्यक्तियों को प्रदान की जाएगी। यदि आप या आपके बच्चे(बच्चों) में कोविड-19 के कोई लक्षण हों, तो कृपया पब्लिक हेल्थ गाउडलाइंस का पालन करें।

क्या यह सुरक्षित है?

प्रत्येक मोबाइल कलेक्शन साइट में निम्नलिखित स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रोटोकॉल शामिल रहेंगे:

- ड्रॉपलेट सावधानियों के लिए सभी कार्यरत कर्मचारियों के लिए PPE, जिसमें कुछ आइटमों में प्रत्येक सेवा प्रदत्त व्यक्ति के बाद बदली जाएगी।
- सभी कर्मचारियों के लिए हाथों की अधिक स्वच्छता
- प्रत्येक व्यक्ति की जांच के बाद क्यूबिकल्स और कुर्सियों को रोगाणुरहित करना
- आवश्यकता पड़ने पर सर्जिकल मास्क दिए जाएंगे
- सेवा प्रदान किए जाने से पहले और बाद में, छात्रों और कर्मचारियों के लिए हाथों की स्वच्छता की आवश्यकता होगी।

यदि आपके कोई और सवाल हों, तो आप 1-877-849-3637 पर हमारे कॉल सेंटर से संपर्क करें।
